



Mrs. Sonam Gupta \_1

23 Mar 1989

05:30 PM

Jammu

Model: Health-Report

Order No: 121607401



## स्वास्थ्य, व्यक्तित्व एवं प्रकृति

आपके जन्म समय में लग्न में सिंह राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी सूर्य है। सिंह लग्न में उत्पन्न जातक सामान्यतया तेजस्वी पराक्रमी एवं उत्साही होते हैं तथा उनमें आत्म विश्वास का भाव पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है। अपनी बुद्धि एवं पराक्रम के बल पर वे जीवन में उन्नति तथा सफलता प्राप्त करते हैं। ये जातक सिद्धांतवादी होते हैं तथा अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं। धर्म के प्रति भी इनके मन में श्रद्धा रहती है तथा समयानुसार परोपकार संबंधी कार्य भी सम्पन्न करते रहते हैं। सिंह लग्न के जातक विश्वसनीय होते हैं। इसके साथ ही राजनीति या कार्य क्षेत्र में किसी उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं फलतः समाज में मान प्रतिष्ठा तथा यश विद्यमान रहता है। साथ ही नेतृत्व की क्षमता भी उनमें रहती है।

अतः इसके प्रभाव से आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा तथा अन्य जन आपसे प्रभावित रहेंगे आप एक निडर महिला होंगी तथा निर्भीकतापूर्वक अपने कार्यकलापों को पूर्ण करेंगी तथा इनमें आपको मनोवांछित सफलता भी प्राप्त होगी जिससे जीवन में आपको सुख संसाधन तथा धनैश्वर्य अर्जित करने में सफल होंगी।

आपके मन में उदारता का भाव भी विद्यमान रहेगा। आप स्वपरिश्रम से उन्नति करेंगी एवं प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफल होंगी। आपके शत्रु तथा प्रतिद्वन्दी भी आपसे भयभीत तथा प्रभावित रहेंगे जिससे आपकी ख्याति एवं सम्मान में वृद्धि होगी। परन्तु आपके प्रवृत्ति अन्य जनों को अपने से तुच्छ समझने की रहेगी अतः यदि आप ऐसी भावनाओं का परित्याग कर सकी तो आपके प्रतिष्ठा में सतत वृद्धि होती रहेगी।

लग्न में केतु की स्थिति के प्रभाव से आप का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा तथा मानसिक शांति तथा सन्तुष्टि भी मध्यम होगी। आप में तेजस्विता का भाव भी रहेगा जिससे यदा कदा अनावश्यक क्रोध एवं उग्रता का प्रदर्शन करेंगी। अतः उग्रता के भाव का आपको परित्याग करना चाहिए। आपकी प्रवृत्ति अभिमानी होगी तथा यदा कदा अत्यधिक मात्रा में वार्तालाप भी करेंगी। सहनशीलता के भाव की आप में न्यूनता रहेगी परन्तु अपने महत्वपूर्ण कार्यों को परिश्रम एवं पराक्रम से सम्पन्न करेंगी।

जीवन में अवसरानुकूल आप धैर्य एवं गम्भीरता का भी परिचय देंगी तथा अपने इस गुण से इच्छित सफलता प्राप्त करेंगी एवं सर्वत्र आपके उन्नतिमार्ग प्रशस्त रहेंगे। माता पिता के प्रति आपका पूर्ण श्रद्धा तथा सम्मान का भाव रहेगा तथा उनकी सेवा करने में तत्पर रहेंगी। आपके संतति अल्प होगी तथा उनसे आपको यथोचित सुख एवं सहयोग मिलेगा आप में परोपकार की भावना भी विद्यमान होगी तथा समय समय पर तन मन धन से दूसरे की भलाई के कार्यों को सम्पन्न करेंगी।

धर्म के प्रति आपके मन में सामान्य श्रद्धा रहेगी तथा यदा कदा ही धार्मिक कार्यकलापों तथा अनुष्ठानों को सम्पन्न करेंगी परन्तु उत्कृष्ट कार्यकलापों को करने में आप रुचिशील होंगी। मित्रों की आप प्रिय एवं आदरणीय रहेंगी तथा उनसे सामान्य सुख एवं

सहयोग मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त आप सर्व भौतिक सुख संसाधनों तथा धनैश्वर्य को अपने परिश्रम तथा पराक्रम से अर्जित करेंगी तथा जीवन में सुखपूर्वक इनका उपभोग करेंगी।




## रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
मूंगा	मंगल	89%	व्यावसायिक उन्नति, भाग्योदय, सुख
गोमेद	राहु	70%	दम्पति, सन्तति सुख
पन्ना	बुध	69%	दम्पति, धनार्जन, धन
पुखराज	गुरु	66%	व्यावसायिक उन्नति, सन्तति सुख, दुर्घटना से बचाव
माणिक्य	सूर्य	62%	दुर्घटना से बचाव, स्वास्थ्य
हीरा	शुक्र	50%	दुर्घटना से बचाव, व्यावसायिक उन्नति, पराक्रम
मोती	चंद्र	41%	धन हानि, व्यय
लहसुनिया	केतु	41%	रोग, दुर्घटना
नीलम	शनि	25%	सन्तति कष्ट, शत्रु व रोग, दाम्पत्य कष्ट



### दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
चंद्र	26/01/1991	69%	58%	89%	75%	66%	50%	25%	58%	16%
मंगल	26/01/1998	69%	52%	100%	56%	72%	50%	25%	58%	52%
राहु	26/01/2016	50%	16%	77%	69%	66%	56%	38%	83%	16%
गुरु	26/01/2032	69%	52%	95%	56%	78%	25%	25%	70%	41%
शनि	26/01/2051	50%	16%	77%	75%	66%	56%	50%	77%	16%
बुध	26/01/2068	69%	16%	89%	81%	66%	56%	25%	70%	41%
केतु	26/01/2075	50%	16%	95%	69%	66%	56%	0%	58%	58%
शुक्र	26/01/2095	50%	16%	89%	75%	66%	62%	38%	77%	52%
सूर्य	27/01/2101	75%	52%	95%	69%	72%	25%	0%	58%	16%

## लग्न फल

आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ था। आपके जन्म काल सिंह लग्न के साथ-साथ वृश्चिक नवमांश तथा मेष राशीय द्रेष्काण भी उदित था। सिंह लग्न के उपयुक्त संयोजन से यह स्पष्ट दृश्य हो रहा है कि यदि आप सतर्कता पूर्वक समुचित योजनानुसार कार्यारम्भ करे तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगी। लेकिन आपके लिए धन-उपार्जन के स्रोत अनिवार्य हैं। यदि आय के स्रोत में कोई व्यवधान उपस्थित हुआ तो यह संभव है कि आप की समस्याएं संघर्षपूर्ण होकर आपके जीवन पथ को समृद्धिशाली बनाने में समस्याओं के साथ मुठभेड़ करना पड़े।

वर्तमान काल वास्तविक संयोजन का स्वरूप ऐसा चित्रित हो रहा है कि आपके जीवन का स्वरूप उत्तम, अधम एवं अप्रिय प्रतीत होगा। वर्तमान काल जो ग्रह आपके धनोपार्जन हेतु प्रतिकूल है उनका उच्च प्रभावी होना आवश्यक है अन्यथा आपकी उच्च स्थिति एवं आनन्द प्राप्ति के मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे तथा आपको आवश्यकता की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण धनोपार्जन के लिए कोई समझौता करना पड़ेगा। आप किसी प्रशासनिक पद पर कार्यरत होने के लिए सक्षम है। किसी निगम एवं बड़ी कम्पनी की निदेशक पद पर कार्य हेतु योग्य है। समाज में आपका प्रभाव रहेगा आपको धन, प्रतिष्ठा एवं सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

सिंह लग्न सदैव ही उचित दिशा निर्देश करता है। सिंह लग्न प्रभावी स्त्री का जीवन छलकपट से युक्त, आडम्बर एवं असन्तोषयुक्त तथा आशा प्रत्याशा दिलानेवाला होता है। यह धन उपार्जन करने वाला उत्तम पारिवारिक जीवन से युक्त होता है। आप सदैव दो गुणों से पूर्ण अर्थात् उत्तम स्वास्थ्य से युक्त एवं आनन्दित रहेंगी। परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धावस्था में ऐसा अवसर आ सकता है कि आप आंशिक रूप से हृदय रोग अथवा मेरु दण्डीय समस्याओं से ग्रसित हों जाएं। क्योंकि आपके व्यस्ततम कार्यक्रम एवं उत्तेजनापूर्ण मनोदशा ही आपको रोगग्रस्त कर सकते हैं।

परन्तु वृश्चिक नवमांश बिन्दु भिन्न प्रकार से आपके जीवन की छवि को प्रस्तुत करता है कि आपके अंग में आंशिक दोष जन्मकाल से ही रोग के रूप में प्रभावी हैं।

अस्तु! आपको समुचित रूप से क्रमबद्धतापूर्वक अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहना चाहिए ताकि रोग के प्रभाव से मुक्त रह सकें। आपकी कुण्डली का नवमांश फल यह प्रदर्शित करता है कि आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। आपके लिए विशेष विचारणीय तथ्य यह है कि आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रह कर समुचित रूप से ध्यान देना चाहिए। जितनी भी संभावना हो सतर्कतापूर्वक मन में शांति एवं निर्विघ्न रूप से विश्राम ग्रहण कर भोजनादि पर नियंत्रण रखें तथा हानिकारण वस्तुओं का परित्याग करें। अन्य वांछनीय तथ्य यह है कि आपको सावधानी पूर्वक अपना जीवन संचालन करना चाहिए। अस्तु आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं के प्रति उचित आहार विहार का सेवन करे।

आपको अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की परेशानियों के प्रति सजग रहना

चाहिए। आपमें विभिन्न प्रकार के प्रभावशाली गुण विद्यमान है। यदि आप सुव्यवस्थित रूप में इन गुणों को व्यवहृत करें तो आप धनी हो सकती हैं। आपको राय दी जाती है कि आप अपने धन कोष का परीक्षण करें क्योंकि आप जनताओं के मध्य उपस्थित होकर बहुतायत में धन का व्यय करेंगी। यदि आप संप्रति इस प्रकार मुक्त हस्त से व्यय करती रहीं तो बाद में पश्चाताप करना पड़ सकता है क्योंकि आपका धन बर्बाद हो चुका होगा।

आपके पास सुन्दर पति, श्रद्धाप्रदायक पुत्र से युक्त पारिवारिक भवन होगा। आप पर्याप्त आर्थिक धनोपार्जित स्रोतों से युक्त अधिकारपूर्ण शान-शौकत से युक्त आरामदायक जीवन बिताने के साधन से सफल होंगी।

आपके लिए साप्ताहिक दिनों में भाग्यशाली दिन रविवार, मंगलवार, और गुरुवार का दिन किसी भी बड़े कार्यों को प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त एवं ठीक है। परंतु बुधवार, शुक्रवार एवं शनिवार का दिन आपके नये कार्य-कलाप के प्रारंभ करने हेतु अनुपयुक्त हैं। कृपया इन तीन दिनों को अव्यवहारणीय समझे। सोमवार आप के लिए मध्य फलदायक है।

आपके लिए अंक 1, 4, 5, 6 एवं 9 अंक लाभदायक प्रमाणित होगा। परन्तु अंक 2, 7 और 8 अंक किसी भी परिस्थिति में आपके लिए अनुपयुक्त है।

आपको नीला, काला एवं सफेद रंग का परित्याग कर, रंग, नारंगी, लाल और हरे रंग का वस्त्रादि धारण करना चाहिए। ये रंग आपके लिए लाभदायक है।

## रुद्राक्ष

रुद्राक्ष को शिव का अश्रु कहा जाता है। रुद्राक्ष दो शब्दों के मेल से बना है पहला रुद्र का अर्थ होता है भगवान शिव और दूसरा अक्ष इसका अर्थ होता है आंसू। माना जाता है की रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई वह मोती स्वरूप बूँदें हैं जिसे ग्रहण करके समस्त प्रकृति में आलौकिक शक्ति प्रवाहित हुई तथा मानव के हृदय में पहुँचकर उसे जागृत करने में सहायक हो सकी।

रुद्राक्ष की भारतीय ज्योतिष में भी काफी उपयोगिता है। ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने में रुद्राक्ष का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, जो अपने आप में एक अचूक उपाय है। गम्भीर रोगों में यदि जन्मपत्री के अनुसार रुद्राक्ष का उपयोग किया जाये तो आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते हैं। रुद्राक्ष की शक्ति व सामर्थ्य उसके धारीदार मुखों पर निर्भर होती है। रुद्राक्ष सिद्धिदायक, पापनाशक, पुण्यवर्धक, रोगनाशक, तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है।

एक मुखी से लेकर चौदह मुखी तक रुद्राक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं, उनकी अलौकिक शक्ति और क्षमता अलग-अलग मुख रूप में दर्शित होती है। रुद्राक्ष धारण करने से जहाँ आपको ग्रहों से लाभ प्राप्त होगा वहीं आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। रुद्राक्ष का स्पर्श, दर्शन, उस पर जप करने से, उस की माला को धारण करने से समस्त पापों का और विघ्नों का नाश होता है ऐसा महादेव का वरदान है, परन्तु धारण की उचित विधि और भावना शुद्ध होनी चाहिए।

रुद्राक्ष दाने पर उभरी हुई धारियों के आधार पर रुद्राक्ष के मुख निर्धारित किये जाते हैं। रुद्राक्ष के बीचों-बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रेखा होती है जिसे मुख कहा जाता है। रुद्राक्ष में यह रेखाएं या मुख एक से 14 मुखी तक होते हैं और कभी-कभी 15 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष भी देखे गए हैं। आधी या टूटी हुई लाईन को मुख नहीं माना जाता है। जितनी लाईनें पूरी तरह स्पष्ट हों उतने ही मुख माने जाते हैं।

पुराणों में प्रत्येक रुद्राक्ष का अलग-अलग महत्व और उपयोगिता का उल्लेख किया गया है -

एक मुखी - सूर्य ग्रह - स्वास्थ्य, सफलता, मान-सम्मान, आत्म - विश्वास, आध्यात्म, प्रसन्नता, अनायास धनप्राप्ति, रोगमुक्ति तथा व्यक्तित्व में निखार और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है।

दो मुखी - चंद्र ग्रह- वैवाहिक सुख, मानसिक शान्ति, सौभाग्य वृद्धि, एकाग्रता, आध्यात्मिक उन्नति, पारिवारिक सौहार्द, व्यापार में सफलता और स्त्रियों के लिए इसे सबसे उपयुक्त माना गया है।

तीन मुखी - मंगल ग्रह- शत्रु शमन और रक्त सम्बन्धी विकार को दूर करने में सहायक होता है।

चार मुखी - बुध ग्रह- शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि - विवेक, और कामशक्ति में वृद्धि प्राप्त कराता है।

पांच मुखी - गुरु ग्रह- शारीरिक आरोग्यता, अध्यात्म उन्नति, मानसिक शांति और प्रसन्नता के लिए भी इसका उपयोग किया होता है।

छः मुखी - शुक्र ग्रह - प्रेम सम्बन्ध, आकर्षण, स्मरण शक्ति में वृद्धि, तीव्र बुद्धि, कार्यों में पूर्णता और व्यापार में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कराता है।

सात मुखी - शनि ग्रह- शनि दोष निवारण, धन-संपत्ति, कीर्ति, विजय प्राप्ति, और कार्य व्यापार आदि में बढ़ेतरा कराने वाला है।

आठ मुखी - राहू ग्रह- राहु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, ज्ञानप्राप्ति, चित्त में एकाग्रता, मुकदमे में विजय, दुर्घटनाओं तथा प्रबल शत्रुओं से रक्षा, व्यापार में सफलता और उन्नतिकारक है।

नौ मुखी - केतू ग्रह- केतु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, सुख-शांति, व्यापार वृद्धि, धारक की अकालमृत्यु नहीं होती तथा आकस्मिक दुर्घटना का भी भय नहीं रहता।

10 मुखी - भगवान महावीर- कार्य क्षेत्र में प्रगति, स्थिरता व वृद्धि, सम्मान, कीर्ति, विभूति, धन प्राप्ति, लौकिक-पारलौकिक कामनाएँ पूर्ण होती हैं।

11 मुखी - इंद्र ग्रह- आर्थिक लाभ व समृद्धिशाली जीवन, किसी विषय का अभाव नहीं रहता तथा सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं।

12 मुखी - भगवान विष्णु ग्रह- विदेश यात्रा, नेतृत्व शक्ति प्राप्ति, शक्तिशाली, तेजस्वी बनाता है। ब्रह्मचर्य रक्षा, चेहरे का तेज और ओज बना रहता है। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा मिट जाती है।

13 मुखी - इंद्र ग्रह- सर्वजन आकर्षण व मनोकामना प्राप्ति, यश-कीर्ति, मान-प्रतिष्ठा व कामदेव का प्रतीक है। उपरी बाधा और नजर दोष से बचाव के लिए विशेष उपयोगी है।

14 मुखी - शनि ग्रह- आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति, धन प्राप्ति व कष्टनिवारक हैं। शनि की साढ़ेसाती या ढैया में विशेष कष्टनिवारक है।

### आपकी कुंडली और रुद्राक्ष

आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। आप अत्यंत तेजस्वी एवं आत्मविश्वासी हैं। अग्नि की ही भांति आप ऊर्जावान भी हैं किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटते हैं जो कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करके ही बैठते हैं। नीतियाँ बनाना एवं उन पर कार्य करना आपको विशेष पसंद हो सकता है। अनुशासनहीनता आपको बर्दाश्त नहीं होती है। जो नियम आप बनाते हैं, उन पर स्वयं भी कार्य करते हैं और दूसरों से करवाते भी है। अपना मान सम्मान आपको बहुत प्रिय होता है। यदि किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे निभाते हैं। स्थिर लग्न होने से आपके स्वभाव एवं व्यवहार में भी स्थिरता होती है। आप जो भी कहते हैं, उस पर अंत तक स्थिर रहते हैं। जिस भी कार्य को आप शुरू करते हैं उससे अंत तक जुड़े रहते हैं। आप मानसिक और

प्रशासनिक कार्य अच्छे से करते हैं। इसके विपरीत हो सकता है की शारीरिक कार्य करना आपको अधिक पसंद न हो। आप जिनसे प्यार अथवा मित्रता करते हैं उस पर केवल अपना ही अधिकार समझते हैं और ये ईर्ष्या की हद तक होता है।

कुंडली के 6, 8 व 12 भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। त्रिक भावों को शुभ भाव नहीं समझा जाता। इन भाव-भावों का सम्बन्ध जिन भी ग्रहों व भावों से बनता है उनकी शुभता में कमी आती है। त्रिक भावों को शुभ भाव नहीं समझा जाता। इन्हीं में से छठा भाव रोग, ऋण व सेवा भाव है। शत्रुओं का विचार करने के लिए भी इसी भाव का विश्लेषण किया जाता है। यह उपचय भाव भी है। इसके अलावा अर्थ भाव है। इस भाव के भावेश का अशुभ प्रभाव में होना, आपके स्वास्थ्य में कमी का कारण बन सकता है। दूसरा त्रिक भाव अष्टम भाव है। इस भाव से जिन विषयों का विचार किया जाता है, उन विषयों में आठवा भाव आयु, दुर्घटना, आपरेशन, अपयश व नैतिक पतन है। इस भाव से व्यक्ति को मिलने वाला अपमान, पदच्युति, शोक, ऋण, मृत्यु तथा व्यक्ति के जीवन में आने वाली रुकावटें देखी जाती है। अंतिम त्रिक भाव द्वादश भाव है, द्वादश भाव से व्यय, हानियां, कारावास, बंधन, विदेश में जीवन आदि का विचार किया जाता है।

इन भावों के स्वामियों और इन भावों में स्थित ग्रहों में अशुभता का अंश पाया जाता है। जिसके फलस्वरूप ये आपके जीवन को समय समय पर बाधित करते रहते हैं।

आपके लग्न के लिए षष्ठ भाव व सप्तम भाव के स्वामी शनि है, शनि षष्ठेश है, इसलिए आपको वात-पित्त रोग हो सकते हैं। विवेक व बुद्धि से शत्रुओं पर विजय, विद्या व बुद्धि से अल्प लाभ, संतान से न्यून सुख, जीवन संकटमय, व्यय अधिक, पराक्रम वृद्धि, भाई बहनों से अल्प सुख का कारण बन सकता है।

अष्टम भाव व पंचम के गुरु आपको दीर्घायु, प्रभावशाली दिनचर्या, विद्या व बुद्धि का अल्प लाभ, संतान से कष्ट, विदेश स्थानों से लाभ, माता, भूमि व सम्पत्ति से साधारण लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं।

द्वादश के चन्द्र है। द्वादशेश चन्द्र मानसिक सुखों में कमी, माता सुख में कमी करता है, धन और प्रतिष्ठा की हानि होती है। इसके अतिरिक्त यह योग नजला-जुकाम और गुप्त शत्रुओं की वृद्धि करता है।

सूर्य का अष्टम भाव में होना, सन्तान और शिक्षा क्षेत्र को बाधायुक्त बना रहा है। जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं, सरकारी कार्यों में बाधाएं, सरकारी क्षेत्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त न होना, हृदय सम्बन्धी लम्बी अवधि के रोग, पुलिस और ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता में कमी हो सकती है। सूर्य आपकी विद्वता में कमी कर रहा है, वाणी में कटुता का भाव कुछ अंश तक आ सकता है, धन-संचय में कमी, कुटुंब से मतभेद, अल्पकाल के लिए मिथ्याभाषी हो सकते है।

शुक्र अष्टम भाव में विवाह के उपरान्त भाग्योन्नति, सामान्य धनी, जीवन साथी द्वारा धनार्जन करने में सफलता प्राप्त करता है। शुक्र अष्टम भाव में प्रेम सम्बन्धों में बाधाएं, जन्म

स्थान से दूर निवास, परस्त्रीरत बना सकता है।

इन सभी के फलों में शुभता प्राप्त करने के लिए आपको 1, 2, 5, 6, 7 मुखी रुद्राक्षों का कवच धारण करना चाहिए। यह कवच सफेद धागे में डालकर सोमवार को गंगाजल से शुद्ध कर ॐ नम शिवाय मंत्र के 108 बार जप कर धारण करना चाहिए। तदुपरांत शिवजी को कच्चा दूध चढ़ाए। क्षमतानुसार दान करे। इस प्रकार आपके जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलेगा एवं विशेष कष्टों में न्यूनता आएगी। कुंडली के सभी ग्रहों को शुभता प्रदान करने के लिए आप शिव कृपा रुद्राक्ष माला जो एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष से निर्मित होती है, भी धारण कर सकते हैं। एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष माला अद्भुत व चमत्कारी फल प्रदान करती हैं।

उपरोक्त कवच बिना दशा, गोचर विचार के आपको जीवन भर धारण करना चाहिए। क्योंकि यह कवच जन्म लग्न एवं उसमें स्थित ग्रहों के अवगुणों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं।



## स्वास्थ्य - 2026

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध सामान्य रहेगा। शनि एवं राहु ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानी उत्पन्न कर सकता है। अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है परन्तु एकादशस्थ गुरु के प्रभाव से आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे।

02 जून के बाद छोटी मोटी बीमारियों से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आर्थिक मुद्दे या किसी और मुद्दे को ले कर आवश्यकता से ज्यादा चिंता न करें। नहीं तो इन सबका नकारात्मक प्रभाव आपके सेहत पर पड़ेगा। द्वादशस्थ गुरु के जल तत्व राशि में होने के कारण कफ रोग या मौसमजनित बीमारियां हो सकती हैं। सुबह-सुबह व्यायाम करना या योग करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। 31 अक्टूबर के बाद आपका स्वास्थ्य अनुकूल होना शुरू हो जाएगा।

### जनवरी 2026 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपका मन और शरीर काफी स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। स्वयं की स्वस्थता हेतु आपको अपने छोटे दुःख की भी तत्काल चिकित्सा करानी होगी। दुःख के आरम्भ में ही देखभाल करने से रोग बड़ा नहीं होगा और उसका समय पर समाधान हो जाएगा। समय-समय पर जांच करते रहने से गंभीर बीमारी की संभावना समाप्त होगी। अचानक से होने वाले रोगों पर भी यह उपाय नियंत्रण बनाए रखेगा। परन्तु इस माह नेत्र संक्रमण की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है। सामान्य देखभाल करने से भी आपका स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक अच्छा माह रहेगा। स्वास्थ्य उपचार से संबंधित चिंता का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

### फरवरी 2026 के लिए फलादेश

अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको इस माह बहुत अधिक सावधान रहना होगा। जिन व्यक्तियों को पाचन तंत्र, वायु रोग, गठिया तथा जीर्ण रोग जैसी पुरानी बीमारियां हैं। उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। यही कारण है कि आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी और उचित देखभाल रखते हुए आवश्यक पड़ने पर उचित उपचार भी लेते रहें। इनमें से किसी भी प्रकार की देरी गंभीर प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकती है। ग्रह नक्षत्र का पूरा सहयोग प्राप्त न होने के कारण ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसके अलावा इस माह आपका अत्यधिक भोजन करना भी परेशानी खड़ी कर सकता है। सावधानी के साथ संतुलित जीवन शैली का पालन करते हुए, अपने स्वास्थ्य सुख को बनाए रख सकते हैं।

### मार्च 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह, नक्षत्र स्थिति स्वास्थ्य के पक्ष से स्वास्थ्यवर्धक बनी हुई हैं। अल्सर, पीठ और पुरानी अनियमितता की शिकायतों से इस माह आपको राहत मिलना बहुत

बड़ा लाभ होगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता की विफलता होने पर आप अपने लिए स्वास्थ्य कष्टों को बढ़ा सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए सदैव सतर्क बने रहें। अपनी स्वास्थ्य सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना आप के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। इससे आपको बचने की जरूरत है। आप अनावश्यक रूप से मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार से दबाव लेने से बचें। इससे आप लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह माह स्वास्थ्य के मामलों के लिए चिंता का विषय नहीं रहेगा।

### अप्रैल 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य मामलों का समाधान कर रही है। इस माह अनुकूल ग्रह, नक्षत्र स्थिति होने से आपका स्वास्थ्य प्रबल बना रहेगा। जिन व्यक्तियों को जुकाम, खांसी, बवासीर आदि जैसी वेदनाएं होने का खतरा आंशिक रूप से बन रहा हो, उन व्यक्तियों को सामान्य सावधानियां बनाए रखनी चाहिए। साथ ही इस माह के मध्य कोई गंभीर समस्या होने की संभावना नहीं बन रही है। अतः स्वास्थ्य सुख के लिए सामान्य सावधानियों का त्याग न करें। इसके अतिरिक्त किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। स्वास्थ्य विषयों के लिए सामान्य सतर्कता बनाए रखना अच्छा रहेगा। यह माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हर तरह से बहुत संतोषजनक बना हुआ है।

### मई 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह, नक्षत्र स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होकर स्वास्थ्य शुभता का आशिर्वाद दे रही है। इसके अलावा पुरानी अनियमितता होने का खतरा न होने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। अचानक से होने वाले रोग जैसे बुखार या शीघ्र क्रोध आना जैसी बीमारियों का चिकित्सा उपचार शीघ्र कराना होगा। इससे रोग नियंत्रित रहेंगे और गंभीर बीमारियां जन्म नहीं ले पायेंगी। इस माह का मिला जुला भाग्य आपको लापरवाही न बरतने पर दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बना रहा है। आवश्यक देखभाल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।

### जून 2026 के लिए फलादेश

आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप अपनी ओर से किसी प्रकार की लापरवाही न करें, स्वास्थ्य अनुकूलता के लिए आपकी तत्परता आवश्यक है। ग्रह एवं नक्षत्रों की शुभता आपके सभी स्वास्थ्य विकारों का समाधान कर रही है। आंशिक रूप से पाचन शिकायतें, गठिया, वायु रोग एवं पुराने रोगों का न उभरना आपको राहत देगा। परन्तु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य विकारों को अनदेखा करने लगे। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप सामान्य सावधानी रखें और गंभीर विषयों का ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की किसी भी छोटी सी शिकायत को भी आपको नजर अंदाज नहीं करना है। इससे यह माह आपके लिए शुभ होकर अनुकूल बना रहेगा।

## जुलाई 2026 के लिए फलादेश

आने वाले माह में आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं बन रहे हैं। लेकिन सख्ती से आवश्यक बचाव का पालन कर, आप काफी हद तक प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने में सफल रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप एहतियात के रूप में अधिक परिश्रम करने से बचे। स्वयं पर अनुचित दबाव न लेते हुए आप सामान्य गतिविधियों के द्वारा अपने आवश्यक कार्यों की सूची बना उनका पालन करना चाहिए। इससे आप स्वास्थ्य के संबंध में होने वाली संभावित हानियों से बच सकते हैं। इस माह में आपमें कुछ घबराहट की स्थिति बन सकती है। आवश्यक योग अभ्यास, सुबह की सैर करने से ग्रहों की स्थिति की प्रतिकूलता को कम कर सकता है। ऐसा करने से आप अपने स्वास्थ्य विकारों से बाहर आ सकते हैं।

## अगस्त 2026 के लिए फलादेश

इस माह भाग्य की शुभता आपके स्वास्थ्य को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे है। पुरानी अनियमितताओं के न होने का खतरा आपको काफी राहत का अनुभव कराएगा। सभी प्रकार की सावधानी बरतें। वायु रोगों से भी आप बचाव का ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से न लेना किसी बड़े रोग को निमंत्रण देना हो सकता है। सामान्य सावधानियां रखने से ही आप गंभीर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। विशेष रूप से आपको जुकाम, खांसी, कफ जैसी वेदनाओं को लेकर सावधान रहना चाहिए। एक मामूली बीमारी होने से इसका ईलाज तुरंत करना चाहिए। अन्यथा कठिनाईयां हो सकती हैं। इस विषय में यह समय आपके लिए सचेत रहना का रहेगा।

## सितम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह ग्रहों की स्थिति, योग आपके स्वास्थ्य सुख के लिए अनुकूल बन रही हैं। इससे पूर्व किसी भी प्रकार की पुरानी अनियमितताओं जैसे बुखार, शीघ्र क्रोध आना इत्यादि में इस माह में कमी आएगी। फिर भी आप अचानक से होने वाले रोगों के प्रति सावधान रहें। कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना नहीं बन रही है। स्वास्थ्य चिंताओं में कमी करने के लिए आप आवश्यकता पड़ने पर बिना देरी किए समय पर ईलाज करायें। ग्रह स्थिति स्वास्थ्य के पक्ष से शुभ होने के कारण इस अवधि में सरल सामान्य देखभाल से भी आपको बहुत लाभ पहुंच सकता है। विशेष रूप से इस माह आपको सिर से जुड़े विभिन्न रोग होने की आंशिक संभावनाएं बन रही हैं। बालों में तेजी से गिरावट की स्थिति बन सकती है।

## अक्टूबर 2026 के लिए फलादेश

उस माह के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत अधिक सावधान रहना होगा। इस माह पुराने रोग जैसे पाचन तंत्र, वायु रोग एवं गठिया रोग होने का खतरा है। इस विषय में अत्यंत सावधानी बरतना हितकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त आप गले की खराश से पीड़ित होने की संभावना बन रही है। आपको अपने हृदय की जांच सूक्ष्मता से करानी चाहिए।

इससे हृदय रोगों का पता समय रहते चल जाएगा। इस माह बन रहे ग्रह, नक्षत्र और योगों के अनुसार रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा राहत प्राप्ति एक अच्छा विचार होगा। यह माह आपके स्वास्थ्य के पक्ष से अनुकूल नहीं हैं। इसलिए इस अवधि में स्वयं की देखभाल करने की विशेष आवश्यकता पड़ सकती है।

### नवम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति के अनुसार आपको अपने स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर व्यय करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के पक्ष से यह स्थिति बहुत प्रेरणादायक नहीं है। फिर भी छोटी छोटी सावधानियां बनाए रखने से आप चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। अस्थमा और तरह-तरह की जीर्ण अनियमितताओं के होने का खतरा बन रहा है। लगातार उचित देखभाल सुनिश्चित करने से आप हालात की गिरावट को रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपने सामर्थ्य शक्ति से अधिक परिश्रम करने से बचना चाहिए। अन्यथा सामान्य दुर्बलता की स्थिति भी आपके लिए काफी नुकसान देह हो सकती है। सामान्य सावधानियां निर्धारित करने से और चिंताजनक स्थितियों से स्वयं को दूर रखने से स्थिति आपके नियंत्रण में बनी रहे।

### दिसम्बर 2026 के लिए फलादेश

माह अवधि में बन रहे ग्रह, नक्षत्र और स्थिति आपके स्वास्थ्य के मामलों के बारे में बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं। इस अवधि विशेष में आपके पाचन अंग आसानी से अव्यवस्थित हो सकते हैं। आपको जुकाम, खांसी, दमा जैसी पुरानी शिकायतें परेशान कर सकती हैं। इन रोगों को निष्प्रभावी करने के लिए आपका योग-व्यायाम सावधानी के रूप में करना चाहिए। तथा स्वास्थ्य में किसी भी तरह की अनियमितता, वेदना का गंभीरता से ईलाज करना चाहिए और आवश्यक दवाएं भी लेनी चाहिए। स्वास्थ्य के हालात काफी तेजी से बिगड़ सकते हैं। इस विषय में किसी भी तरह की विफलता होने पर स्वास्थ्य ओर खराब होकर समस्या पैदा कर सकता है। यह एहतियात बरतने से आप स्वास्थ्य संबंधी गंभीर संकटों से बच सकते हैं। इन उपायों को आप विशेष रूप से इस माह प्रयोग कर सकते हैं।

## स्वास्थ्य - 2027

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध सामान्यतः अनुकूल नहीं रहेगा। द्वादशस्थ गुरु एवं अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कफ, मधुमेह एवं पेट संबंधित बीमारियों के कारण आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। मौसम जनित बीमारियों से भी आप परेशान हो सकते हैं। अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से कभी-कभी बीमारी नहीं होने के बावजूद भी बीमारी जैसा अनुभाव होता रहेगा।

26 जून के बाद गुरु ग्रह का गोचरीय प्रभाव लग्न स्थान में होने से स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ आपका खान-पान एवं दिनचर्या भी अच्छी रहेगी। लग्न स्थान पर शुभ ग्रह का प्रभाव होने से आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करेंगे, जिससे आप का स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। आपकी धर्म पत्नी भी आपकी सेहत का पूर्ण ध्यान रखेंगी। 03 अक्टूबर के बाद आपकी सेहत फिर से प्रभावित हो सकती है।

### जनवरी 2027 के लिए फलादेश

माह अवधि में सितारों की स्थिति आपके लिए शुभ नहीं बन रही है। इस अवधि में आपको अपने पुराने रोगों के प्रति सतर्क रहना होगा। स्वस्थता बनाए रखने के लिए आपको स्वयं अपना ख्याल रखना होगा। आपको अचानक बुखार या तीव्र किस्म की सूजन परेशान कर सकती हैं। तुरंत और सही ईलाज की शुरुआत करने से रोगों को आरम्भिक अवधि में ही नियंत्रित किया जा सकता है। आपको लिवर रोग परेशान कर सकते हैं। यदि आपके लिवर में इससे पूर्व भी विकार हुआ है तो आपको ऐसे रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए खास ध्यान रखना होगा। अपनी स्वास्थ्य शुभता बनाए रखने के लिए आप टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। समय की शुभता अनुकूल न होने के कारण आपको सावधानी का प्रयोग करना होगा।

### फरवरी 2027 के लिए फलादेश

ग्रह सितारों इस माह आपके लिए बहुत शुभ योग में न होने के कारण आपको अपना शुभ आशिर्वाद प्रदान नहीं कर हैं। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। गठिया, वायु रोग, पेट फूलना, पाचन तंत्र और पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी हो सकती हैं। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रयास बढ़ाने होंगे। आपको अपनी अधिक देखभाल, उपचार और आहार का ख्याल रखना होगा। इससे पूर्व यदि आपको लिवर संबंधित रोग रहे है तो इस समय में इन रोगों की वापसी हो सकती है। इस संबंध में घटने वाली घटनाएं आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। अपने लिवर रोगों की रोकथाम के लिए आप कोई उपयुक्त दवा का सेवन कर सकते हैं। सावधानी रखना, रोगों को गंभीर होने से बचाएगा।

### मार्च 2027 के लिए फलादेश

आपकी स्वास्थ्य अनुकूलता के पक्ष से यह माह प्रतिकूल बना हुआ है। कुछ विशेष सावधानियां रखना हितकारी रहेगा। रोगों का समय पर ईलाज न कराने से रोग गंभीर रूप ले सकते हैं। माह अवधि में अत्यधिक परिश्रम करने की वजह से आप सामान्य दुर्बलता से पीड़ित हो सकते हैं। आपको अनावश्यक रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस स्थिति में सुधार करने के लिए आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को पुनःनिर्धारित करना होगा। इस माह में पुराने रोग आपको फिर से परेशान कर सकते हैं। लिवर आदि रोगों की रोकथाम के लिए आपको एहतियात के रूप में कोई दवा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। पुरानी लिवर परेशानियों को नियंत्रित रखना होगा। परहेज के रूप में आप लिवर के लिए एक अच्छा टॉनिक ले सकते हैं।

### अप्रैल 2027 के लिए फलादेश

इस माह में सितारों की शुभता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। इसलिए आपको इस माह में अपने स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलुओं के विषय में सावधान रहना होगा। बवासीर से पीड़ित लोगों को इसके ईलाज और आहार के लिए पहले से अधिक सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बरतने से आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। यदि आपको इससे पूर्व लिवर से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग रहा हो तो आपको इन रोगों से बचाव करने के लिए खास सावधानी बरतनी होगी। इन रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए आपकी जो भी दवाईयां आप लेते हो उन दवाईयों में चूक न करें। लिवर को स्वस्थ करने के लिए कोई अच्छा टॉनिक भी आप ले सकते हैं। इस माह में आपके स्वास्थ्य से संबंधित घटने वाली घटनाएं आपके अनुकूल नहीं होंगी। सावधानी रखना उत्तम रहेगा।

### मई 2027 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य के पक्ष से यह माह आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं बन हुआ है। इस माह अवधि में आपको बुखार या सूजन आदि की परेशानी हो सकती हैं। अचानक से गंभीर रोग आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। किसी भी रोग के आंशिक लक्षण दिखाई देने पर आपको तुरंत उपचार लेना चाहिए। स्वास्थ्य अनियमितताओं को किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं करना है। ईलाज में देरी से आपकी स्थिति में तेजी के साथ हालात खराब हो सकते हैं। इसके अलावा इस माह में दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बन सकती हैं। आपको ऐसी घटनाओं के प्रति रक्षा और सावधानी बरतनी होगी। यह आपके लिए एक कठिन समय है इस दौरान घटनाएं आपके प्रतिकूल भी हो सकती हैं। इसलिए अत्यंत सावधानी रखनी होगी।

### जून 2027 के लिए फलादेश

इस माह में आपके स्वास्थ्य को सुखद बनाए रखने के लिए किसी तरह का प्रोत्साहन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। सावधानी, काफी देखभाल और थोड़ा व्यायाम आपके लिए इस अवधि में हितकारी रहेगा। गठिया जैसे पुराने रोगों में अनियमितता, वायु रोग और पेट फूलन एवं पाचन तंत्र की गड़बड़ी स्वास्थ्य विकार उत्पन्न कर सकती हैं। पुराने रोगों को शांत

रखने के लिए आपको उपचार के साथ साथ परहेज का पालन भी करना होगा। अपनी स्वस्थता के प्रति अत्यधिक सतर्कता आपके लिए हितकारी साबित हो सकती हैं। सतर्कता में विफलता आपके स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ा सकती हैं। पुराने लिवर रोगों का इतिहास होने पर इन रोगों के लिए भी आपको चिकित्सक की सलाह अनुसार अपनी जीवन शैली निर्धारित करनी होगी। निवारक उपाय के रूप में आप स्वयं को चुस्त रखने के लिए किसी आवश्यक टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं।

### जुलाई 2027 के लिए फलादेश

इस माह अवधि में ग्रहों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को शुभ कर आपके प्रोत्साहित कर रहा हैं। इस माह में आप सामान्य सतर्कताओं का पालन कर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे। माह अवधि में आप अपने सामर्थ्य से अधिक मेहनत कार्य न करें। यह आपके स्वास्थ्य में कमी करेगा और आपके लिए बहुत बुरा रहेगा। अपनी ऊर्जा शक्ति का अनावश्यक व्यय बचाने के लिए आप स्फूर्ति और स्वस्थता के लिए खेल गतिविधियों को समय दे सकते हैं। कार्यभार की अधिकता से बचने के लिए आप अपनी गतिविधियों की एक सूची तैयार कर कार्यों को दिनभर के समय में बांट सकते हैं परन्तु आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कार्यक्रम का कठोरता से पालन करें। इस विषय में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त सितारे इस माह आपको ओर कोई परेशानी नहीं देंगे।

### अगस्त 2027 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के पक्ष से बहुत ज्यादा प्रेरणादायक और उत्साहजनक नहीं हैं। हमेशा की तरह इस स्थिति में आपको अपने रोगों को नियंत्रित करने के लिए स्वयं के प्रयासों और बुद्धि पर काफी भरोसा करना होगा। जुकाम, खांसी जैसी गड़बड़ियों से आपको काफी परेशानी हो सकती हैं। ऐसे रोगों का आपको हर संभव उपचार और ध्यान रखना होगा। लिवर रोगों की पुरानी परेशानी होने पर आपको इनसे बचाव के उपाय करने लाभकारी रहेंगे। लिवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप आवश्यक टॉनिक ले। यह आपके रोगों में कमी करने में मदद करेगा। माह अवधि के सितारें आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है। आपको ख्याल रखना होगा।

### सितम्बर 2027 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के बारे में इस माह की भविष्यवाणी काफी संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए इस माह आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। शीघ्र होने वाले रोग जैसे अचानक बुखार या सूजन होने पर आपको शीघ्र ईलाज करना हितकारी रहेगा। कुछ सावधानियां रखने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य अनियमितताओं को अनदेखा करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। रोग के प्रथम लक्षण स्पष्ट होने पर ही चिकित्सा सहायता लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यह बहुत आवश्यक है कि आप सावधानियों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा बना रहें आपको यह सुनिश्चित करना है। तथा

आपको घटनाओं को समझ कर कठिनाईयों को दूर करना हैं। यह भी हो सकता है कि यह एक सुरक्षा कवच की तरह से काम करें। इसलिए अतिरिक्त यदि आपको किसी भी प्रकार की लिवर समस्या है तो आपको इसके उपचार के लिए शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सक से संपर्क कर ईलाज कराना और कोई टॉनिक लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

### अक्टूबर 2027 के लिए फलादेश

इस माह अवधि में सितारों की स्थिति आपके प्रतिकूल होने के कारण आपको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा हैं। इसलिए स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं ही रखना होगा। ग्रह स्थिति के अनुकूल न होने से इस माह में आपको पेट फूलना, वायु रोग, पाचन तंत्र और पुराने रोग के कारण चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ सकती हैं। ऐसे रोगों को निष्प्रभावी करने के लिए आपको उपचार और आहार के विषयों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका नुकसान स्वयं भुगतना होगा। इसके अलावा आपको लिवर की बीमारियों से भी सावधान रहना होगा। माह अवधि में अपना विशेष ख्याल रखना आपके लिए मददगार सिद्ध होगा।

### नवम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह ग्रह, नक्षत्र योग बहुत शुभ नहीं बने हुए हैं। इसलिए इस अवधि में आपको निरोगी बने रहने के लिए अतिरिक्त ध्यान देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य अनियमितताओं को किसी प्रकार से अनदेखा न करना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। सबसे पहले आप अपने सामर्थ्य से अधिक परिश्रम करने से बचें। इससे आप में शारीरिक दुर्बलता आ सकती हैं। साथ ही स्नायु संबंधी विकार भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। इस माह से जुड़ी सभी समस्याओं का स्रोत अत्यधिक परिश्रम आ रहा है। इसलिए आपको इस विषय पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। कार्य भार का वितरण करने से स्वास्थ्य विकारों पर नियंत्रण बना रहेगा। समय बहुत अच्छ नहीं है इसलिए ख्याल रखें।

### दिसम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपको किसी भी प्रकार की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी सावधानियों को एक तरफ कर दें। इस माह अवधि में अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को पाचन अंगों की परेशानियां निष्क्रिय रहने से आपको इन परेशानियों से कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन उपचार और आहार दोनों मामलों में सामान्य सावधानियां जारी रखनी होगी। छाती क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संक्रमणों के प्रति आपको खास ध्यान रखना होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार के लक्षण उभरने पर तुरंत, बिना किसी देरी के उपचार कराना होगा। इन छोटी सी सतर्कताओं से आप इस माह अपने स्वास्थ्य शुभता को बनाए रख सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य पूरे माह अच्छ रहना चाहिए।

## स्वास्थ्य - 2028

अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से वर्षारम्भ में आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा परन्तु 28 फरवरी के बाद लग्न स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरीय प्रभाव के बाद समय बहुत अच्छा हो रहा है। लग्न स्थान पर शुभ ग्रह होने से आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आएंगे, जिससे आप मानसिक रूप से सन्तुष्ट रहेंगे। प्रत्येक कार्य को सकारात्मक रूप से करेंगे। आपके अन्दर रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होगी।

वर्ष के उतरार्द्ध में लग्न स्थान पर राहु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपका स्वास्थ्य किंचित प्रभावित हो सकता है। मौसमजनित बीमारी या आलस्य की भावना उत्पन्न हो सकती है परन्तु आप शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे और अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए नियमित व्यायाम करेंगे। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें।

### जनवरी 2028 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य के लिए यह माह आंशिक रूप से अनुकूल बन रहा है। सितारों का संयोजन आपके लिए बहुत कम शुभ स्थिति बना रहा है। बुखार एवं शीघ्र क्रोध में आना जैसी गड़बड़ियां आपको परेशानी दे सकती हैं। अचानक से गंभीर बीमारी आपकी चिंताएं बढ़ा सकती है। अतिरिक्त देखभाल करने और बहुत शीघ्र उपचार जैसे कदम उठाना आपके लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है। किसी प्रकार का नेत्र संक्रमण होने की संभावनाएं बन रही हैं। सावधान रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। अन्यथा आपके लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अशुद्ध खाने के प्रति आपको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। विषाक्त भोजन के कारण आपके स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। यह अवधि आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। इसलिए आपको इस समय में अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए।

### फरवरी 2028 के लिए फलादेश

सितारों की शुभता आपके स्वास्थ्य शुभता के लिए बहुत उदार नहीं बनी हुई है। इसलिए इस माह में आपको कुछ स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट फूलना, पाचन तंत्र, वायु रोगों के रोग तथा पुरानी बीमारियों में फिर से गड़बड़ी हो सकती है। आहार और उपचार दोनों पर निगरानी रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आहार पर नियंत्रण रखने से आप आसानी से अपने रोगों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। सावधानी के साथ-साथ व्यायाम करने से भी स्थिति में सुधार होगा। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है इसलिए अधिक से अधिक ध्यान देना लाभकारी रहेगा।

### मार्च 2028 के लिए फलादेश

इस माह सितारों की अनुकूलता से आपके स्वास्थ्य विकारों का समाधान हो रहा

है। ग्रहों की शुभता यह सुनिश्चित कर रही है कि इस अवधि में आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके स्वभाव में भी गंभीरता कम और उत्साह अधिक होगा। अत्यधिक परिश्रम के खिलाफ आपको सतर्कता बरतनी होगी। अत्यधिक परिश्रम इस समय बनी हुई सुखद स्थिति को खराब कर सकता है। अनावश्यक रूप से अपने शारीरिक तंत्र पर तनाव डालना ठिक नहीं होगा। अपने दैनिक गतिविधियों को इस प्रकार निर्धारित करें कि आपके शरीर पर बहुत अधिक दबाव न पड़े। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं के एक बड़े हिस्से का सुधार होगा। इस विषय में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तनाव से बचना आपके स्वास्थ्य सुख के लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा इस माह की अनुकूल परिस्थितियां भी किसी गंभीर समस्याओं को रोकने में असमर्थ हो सकते हैं। समय की शुभता होने से इस माह की स्थिति उत्साहजनक बनी हुई है।

### अप्रैल 2028 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य के पक्ष से यह समय आपके सितारों के अनुसार बहुत अनुकूल समय नहीं है। बवासीर जैसे रोगों में गड़बड़ी होने से आप परेशान हो सकते हैं। माह अवधि में अतिरिक्त देखभाल और ध्यान का प्रयोग करना होगा। स्वभाव में विनम्रता की कमी तथा स्वभाव में गंभीरता हो सकती है। यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। काम विषयों में कमी करने से आपके यौन संक्रमण में कमी हो सकती है। आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि इस विषय में आपको अपनी अधिक से अधिक देखभाल करनी होगी। किसी बासी खाद्य या अशुद्ध भोजन सेवन से भी स्वास्थ्य सुख में कमी होने की आशंका बन रही है। विषाक्त भोजन करने से बचें। इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सतर्कता रखनी होगी। कुल मिलाकर यह अवधि सावधानी रखने पर अनुकूलता लिए हुए है।

### मई 2028 के लिए फलादेश

इस माह में बन रही ग्रहों की स्थिति आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य परेशानी या दुर्घटना न होना सुनिश्चित कर रही है। यह माह आपके लिए एक लाभकारी माह रहेगा। इस माह में बुखार, सूजन या अचानक से किसी गंभीर बीमारियों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। आपका स्वभाव उत्साहजनक बना रहेगा। पुरानी गठिया, जुकाम जैसे विकारों से ग्रस्त लोगों को भी राहत मिलेगी। फिर भी इस माह दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बन रही है। अपने स्वास्थ्य की कुछ अतिरिक्त देखभाल करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य शुभता को प्रोत्साहित कर रहा है।

### जून 2028 के लिए फलादेश

माह अवधि में सितारों आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य परेशानी या दुर्घटना न होने का योग सुनिश्चित कर रहे हैं। यह माह आपके लिए एक लाभकारी माह रहेगा। बुखार,

सूजन या अचानक से होने वाली गंभीर बीमारियों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको अच्छा महसूस होगा। इस प्रकार की समस्याओं के शांत रहने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस माह अवधि में आपका स्वभाव अनुकूल और सकारात्मक बना रहेगा। पुरानी गठिया, जुकाम आदि विकारों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जीर्ण बीमारियों की वापसी न होने से आपको राहत का अनुभव होगा। इस माह में आपको कोई हिंसक चोट लगने की संभावना नहीं बन रही है। अतिरिक्त देखभाल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता लिए हुए एक सुखद माह सिद्ध हो सकता है।

### जुलाई 2028 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के लिए यह माह काफी फायदेमंद माह रहेगा। इस माह आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। फिर भी इस अवधि में आपको अधिक परिश्रम करने से परहेज करते हुए, सतर्कता बरतनी चाहिए। यह आपके लिए स्वास्थ्य समस्याओं के आमंत्रण का कारण बन सकता है। परिश्रम की अधिकता आपके शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डाल सकती है। कार्या और गतिविधियों का पूर्वनियोजन आपको अतिरिक्त दबाव से बचाएगा। वरना कुछ अनहोनी होने की संभावना बन सकती है। उपचार की तुलना में हमेशा एहतियात बेहतर रहेगा तथा माह अवधि में आपको विषाक्त भोजन के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। कुछ अशुद्ध या बासी भोजन का सेवन करते समय आपको विशेष ध्यान देना होगा। यह लाभकारी माह है जिसके दौरान आप सामान्य रूप से स्वस्थ रहेंगे।

### अगस्त 2028 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखेगा। माह की संभावनाएं आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता को प्रोत्साहित कर रही है। आप स्वभाव से प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। आपमें उत्साह का भाव बना रहेगा। ठंड में हाथ और पैरों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। इस माह में आपका नर्वस तंत्र आंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है। भोजन विषाक्तता की स्थिति बन सकती है। अशुद्ध भोजन करने से बचें अन्यथा स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। सावधानी रखने से कठिनाईयां कम से कम होंगी और यह आपके लिए काफी फायदेमंद माह सिद्ध होगा।

### सितम्बर 2028 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों आपके स्वास्थ्य कमियों को दूर कर रोगों का निपटारा कर रहे है और अन्य किसी रोग को लेकर गंभीर चिंता का कोई कारण नहीं बन रहा है। स्वयं को सुखमय बनाए रखने के लिए आप जीवन में नकारात्मक विचार धारा से दूर होकर हंसमुख बने रहें। इससे आपकी आरोग्यता दीर्घकाल के लिए सुनिश्चित होगी। साथ ही बुखार, सूजन एवं गंभीर बीमारियों के शांत रहने से आपको रोग कठिनाईयों से बड़ी राहत प्राप्त होगी। इस अवधि काल में आपको सिर से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस प्रकार के रोग के गंभीर रूप धारण करने से पहले आप इसके निवारक उपाय के रूप में सिर के लिए टॉनिक का प्रयोग कर

सकते हैं। यह माह आपके लिए काफी संतोषजनक माह सिद्ध होगा क्योंकि इस माह में आपके किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की संभावना नहीं है।

### अक्टूबर 2028 के लिए फलादेश

इस माह अवधि के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को सुनिश्चित कर रहा है। माह अवधि में सतर्कता और सावधानी बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। पाचन तंत्र, गठिया जैसी अनियमितताओं में गड़बड़ी होने से आपकी स्वास्थ्य परेशानियां बढ़ सकती हैं। माह अवधि में आपको बहुत अधिक देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। गले के रोग आपको स्वास्थ्य परेशानियां दे सकते हैं। यदि आपको हृदय से संबंधित कोई रोग या लक्षण दिखाई देता है तो आपको इनकी जटिलताओं की बारीकी से जांच करानी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा।

### नवम्बर 2028 के लिए फलादेश

यह माह आपके सितारों की स्थिति के अनुसार अनुकूल माह सिद्ध हो रहा है। इस माह में ग्रहों के द्वारा आपके स्वास्थ्य मामलों का समाधान हो रहा है। सतर्कता बनाए रखना इस अवधि की विशेष मांग बन रही है। इस माह अवधि में आपको अपने शारीरिक सामर्थ्य से अधिक परिश्रम नहीं करना है। इस विषय में आपको सावधानी रखनी होगी। अपने शारीरिक तंत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ने से बचाने के लिए आप अपनी गतिविधियों की एक तर्कसंगत अनुसूची तैयार कर उसके अनुसार अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप खेल गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्वभाव को विनम्र बनाए रख भी आप अपने स्वास्थ्य सुख में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अपने कार्यों की अनुसूची का कठोरता से पालन करना आपको रोगग्रस्त होने से बचाएगा। रोगों में कमी होने से आप इस माह अधिक प्रसन्नचित नजर आर्येंगे। सहायक माह होने के कारण इस माह के दौरान आपको कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना होने की संभावना बहुत कम बन रही है।

### दिसम्बर 2028 के लिए फलादेश

इस माह में ग्रह, सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अनुकूल है। अपच जैसे रोगों से ग्रस्त लोगों को माह अवधि में इन रोगों से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त पाचन अंगों के शीघ्र बिगड़ जाने से परेशान व्यक्तियों को भी इस समय में सुखद अनुभव होगा। फिर भी आप इन रोगों के प्रति नियमित रूप से आवश्यक सावधानी बनाए रखें। इसके अतिरिक्त खांसी, अस्थमा जैसी पुरानी शिकायतों के प्रति भी आपको सावधानी रखनी होगी। भोजन में विषाक्तता से पीड़ित हो सकते हैं। कुछ सामान्य सावधानियों का पालन करें और अशुद्ध खाने खाने से बचें। सतर्कता बनाए रखने से यह माह आपके लिए काफी उत्साहजनक माह रहेगा।

## स्वास्थ्य - 2029

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ सामान्य रहेगा। लग्न स्थान पर राहु की दृष्टि से अचानक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अतः स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए अच्छी नहीं होगी। 29 मार्च से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा।

25 अगस्त से आपको खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा। चिकनाईयुक्त व तली हुई वस्तुओं का कम से कम सेवन करना चाहिए। कुछ बेवजह की यात्राएं और काम का बोझ आपको थका सकता है।

### जनवरी 2029 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का सुरक्षा कवच आपके रोगों को दूर रखेगा। इस माह के अधिकतम समय में आप स्वयं को स्वस्थ और चुस्त रखेंगी। शीघ्र प्रभावित होने वाले रोग जैसे बुखार आदि के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपको स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता को अनदेखा करने से बचना होगा। ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य को शुभ बनाए रखने के लिए शुभ बनी हुई हैं। अनहोनी होने का कोई संकेत नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी आप अप्रिय स्थानों और लोगों से दूर रहें। इस विषय में आपको सावधानी रखनी होगी। अपना ध्यान रखने से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा।

### फरवरी 2029 के लिए फलादेश

इस माह आप पर भाग्य का शुभ आशीर्वाद बना रहने के कारण आप उत्कृष्ट स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। यदि पेशिश, कब्ज और पुरानी बीमारियों के रोगी हैं तो इन रोगों में गड़बड़ी न होने से आपको विशेष राहत का अनुभव होगा। इस माह आपके पुराने रोग आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं देंगे। फिर भी रोगों के प्रति सामान्य एहतियात रखना आपको आरोग्यता प्रदान करेगा। बशर्ते की आप इस माह किसी भी मुसीबत को आमंत्रित न करें। सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने से भी आपका स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। साथ ही आप अप्रिय स्थानों और अप्रिय लोगों से दूर रहें। इससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा।

### मार्च 2029 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों की स्थिति आपको स्वस्थता प्रदान कर रही हैं। कुछ विषयों को छोड़कर अन्य सभी स्वास्थ्य मामलों का इस माह समाधान होगा और आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको सावधानी के रूप में अत्यधिक परिश्रम से बचना होगा। स्वयं को स्फूर्ति प्रदान करने के लिए आपको सभी प्रकार की सामान्य गतिविधियों को समय देना चाहिए। खेल और रुचियों को समय देना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्यों में कमी करने के लिए आप एक कार्य सारणी बनाकर इसका प्रयोग कर लाभ

प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूर्व चली आ रही स्वास्थ्य अनियमितताओं का आपको ख्याल रखना होगा। अप्रिय लोगों और अप्रिय स्थानों से दूर रहना होगा। तथा स्वास्थ्य सुख में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको अच्छे वातावरण में रहना होगा।

### अप्रैल 2029 के लिए फलादेश

जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है इस माह की ग्रह स्थिति की शुभता आपके लिए आंशिक रूप से अनुकूल बनी हुई हैं। इसलिए इस माह आपको अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ सकती हैं। इस माह में आपकी स्वास्थ्य अनुकूलता बहुत कम रहेगी। इसके अलावा आपको अप्रिय लोगों और स्थानों से दूर रहना होगा। आपके सामान्य परिवेश का आपकी स्वास्थ्य स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। अतः आप नकारात्मक स्वभाव के लोगों से दूरी बनाए रखें। अपनी भलाई को देखते हुए आप एहतियात बरत कर स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को रद्द कर सकते हैं। अत्यधिक काम आसक्ति से भी आपको बचना होगा। यह आपके यौन अंगों की बीमारी दे सकता है। इस प्रकार के रोगों के प्रति आपको सतर्कता बरतनी होगी। उपचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप शीघ्र उपचार करें।

### मई 2029 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रहों एवं सितारों की शुभता आपको उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान कर आपके स्वास्थ्य विकारों का निराकरण कर रही हैं। आपके स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करने और उसे सुखद बनाए रखने में आपके पास-पास के वातावरण के महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए इस विषय में आपको ध्यान रखना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम बना हुआ है फिर भी इस माह कुछ अनहोनी के संकेत बन रहे हैं। एहतियात के रूप में अप्रिय लोगों, अप्रिय स्थानों से दूर रहना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी रहेगा। आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में यह विशेष भूमिका निभाएगा। किसी भी प्रकार के मामूली बुखार या सूजन के ईलाज के विषय में आपको सतर्कता बनाए रखनी होगी। ऐसे रोगों का शीघ्र उपचार कराने से ये समय पर नियंत्रित रहेंगे।

### जून 2029 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य को स्थिर रूप में उत्तम बनाए रखने के लिए इस माह की ग्रह, घटनाएं आपको सहयोग कर रही हैं। पाचन तंत्र, पुरानी बीमारियों की गड़बड़ी, पेट फूलना एवं वायु रोग के शांत रहने से आपको इन परेशानियों में काफी राहत का अनुभव होगा। अधिक से अधिक सामान्य सावधानियां रखने से आपको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह आपको राहत प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इस माह आपका सौहार्दपूर्ण वातावरण और सकारात्मक स्वभाव के लोगों के साथ रहना आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। साथ ही इस अवधि में अप्रिय परिवेश से दूर रहना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। आपके आस पास का सौहार्दपूर्ण वातावरण आपके स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना इस माह आपके हाथ रहेगा।

## जुलाई 2029 के लिए फलादेश

यह माह आपके लिए सहायक माह होकर आपके स्वास्थ्य को शुभ आशिर्वाद प्रदान कर रहा है। कुछ मामूली समायोजनों को अपना कर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे। इस माह में सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि आपको अत्यधिक मेहनत से बचना होगा। स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने दैनिक कार्यों का एक कार्यक्रम तैयार करना होगा। कार्यभार की अधिकता से आपके शारीरिक और मानसिक संसाधनों पर अनुचित दबाव आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होगा। आपके आसपास का वातावरण भी आपके स्वास्थ्य को काफी हद तक निर्धारित करेगा। किसी भी तरह के अप्रिय स्थानों और अप्रिय लोगों से बचना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। इस माह को उत्तम बनाए रखना आपके लिए सहज होगा। इसके अलावा यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम माह सिद्ध होगा।

## अगस्त 2029 के लिए फलादेश

ग्रहों की शुभ स्थिति के आशिर्वाद के कारण यह माह आपके लिए उत्तम बना हुआ है। इसलिए इस माह आपको कम देखभाल और ध्यान की आवश्यकता रहेगी। फिर भी आपका अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बनाए रखना स्वास्थ्य सुख को बेहतर बनाएगा। यह माह आपके स्वास्थ्य शुभता के लिए अतिउत्तम बना हुआ है। आपके सामान्य परिवेश की प्रकृति भी काफी हद तक आपके स्वास्थ्य शुभता का निर्धारण करेगी। नकारात्मक विचारधारा के लोगों से बचने के लिए आप इस प्रकार के लोगों से दूरी बनाए रखें। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अप्रिय लोगों से दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर यह अवधि आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति है। खांसी, जुकाम जैसे रोग आपके स्वास्थ्य सुख में आंशिक कमी कर सकते हैं। इन रोगों से बचने के लिए एहतियात बनाए रखना एक अच्छा विचार होगा।

## सितम्बर 2029 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान बनने वाली ग्रह युति आपके स्वास्थ्य को शुभ आशिर्वाद प्रदान कर रही है। आप अचानक से किसी रोग के प्रभाव में आ सकते हैं इस प्रकार की बीमारियों के उपचार के प्रति आपको सावधान रहना होगा। उपचार के बिना यदि स्वास्थ्य शुभता बनी रहे तो आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। उपचार शीघ्रता से कराना उति उत्तम फल प्रदान करेगा। इससे रोगों का शीघ्र समाधान होगा और रोग अपनी आरम्भिक अवस्था में ही शांत हो जायेंगे। इस माह विशेष चिंता का कोई कारण नहीं बन रहा है। स्वास्थ्य के पक्ष से भी यह समय शुभफलदायक बना हुआ है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आप किसी तरह से चिंतित नहीं रहेंगे।

## अक्टूबर 2029 के लिए फलादेश

इस माह के सितारें आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ आशिर्वाद दे रहे हैं। इसलिए

इस माह में आपको अपने स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी होगी। यहां तक कि गठिया, वायु रोग, पेट फूलना, पाचन तंत्र और पुराने रोगों के निष्प्रभावी रहने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगी। लेकिन फिर भी ध्यान न रखने पर अनुकूल स्थिति भी प्रतिकूल सिद्ध हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए विपरीत माहौल में रहने से आप रोगों के प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए संक्रमित स्थानों से दूर रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। किसी भी तरह का संक्रमण होने पर तुरंत ईलाज कराना लाभदायक रहेगा।

### नवम्बर 2029 के लिए फलादेश

जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए शुभफलदायक रहेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर इस माह आपको अधिक चिंता नहीं करनी होगी। फिर भी इस माह आपको अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता का ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य को निरंतर अच्छा रखने के लिए कुछ सावधानियां रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस माह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस माह अत्यधिक मेहनत करने से बचना चाहिए। इसके लिए आपको अपने कार्यों के पूर्व में ही एक रूपरेखा या समय सारणी तैयार करनी होगी। इस समय-सारणी का कठोरता से पालन करने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। किसी भी तरह के संक्रमण के प्रति आपको सावधान रहना होगा। इससे आप स्वास्थ्य दिक्कतों का निवारण कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की विफलता आपके स्वास्थ्य रोगों को आमंत्रित कर सकती हैं। इसके अलावा आपको छाती के रोगों के संक्रमण के प्रति भी सावधान रहना होगा।

### दिसम्बर 2029 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य मामलों का समाधान कर रही हैं। इसलिए इस माह में आप स्वस्थ और कम से कम बीमार रहेंगे। फिर भी यदि आपके पाचन अंग काफी आसानी से अव्यवस्थित हो जाते हैं तो इस माह में आपको इन रोगों से राहत का अनुभव होगा। वायु रोगों के प्रति सावधानी बनाए रखना हितकारी रहेगा। तथा रोग अनियमितताओं के प्रति सावधान रहना होगा। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए आपको उपचार से बचने के लिए सावधानियों का ध्यान रखना होगा। खांसी, जुकाम और छाती से संबंधित किसी भी संक्रमण से बचने के लिए आपको एहतियात से काम लेना होगा। रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र दवा लेने से स्थिति गंभीर नहीं होगी।

## स्वास्थ्य - 2030

वर्ष के प्रारम्भ में स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। 04 फरवरी के बाद आप अपने आप को तंदरुस्त और सेहतमंद महसूस करेंगे क्योंकि आपके अन्दर उत्साहवर्धक ऊर्जा की वृद्धि होगी।

मई से आप अपनी दिनचर्या में नयी गतिविधियों को शामिल करेंगे जैसे कि व्यायाम करना या सुबह-सुबह टहलने जाना। यदि आलस्य ने आपके अन्दर घर बना लिया है तो आपका स्वास्थ्य एक चिंताजनक विषय बन सकता है।

### जनवरी 2030 के लिए फलादेश

यह माह एक ऐसा माह है जिसमें ग्रह योग, सितारों के आशिर्वाद से आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए तत्पर हो सकते हैं। इस माह आपका स्वास्थ्य अच्छा तो रहेगा ही साथ ही इस माह आपका शारीरिक तंत्र अनुकूल होने से आपको आहार का पूरा लाभ प्राप्त होगा। जिससे आपका स्वास्थ्य सुख पहले से बेहतर होगा। इस माह उत्पादक शक्तियों में बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी आपके लिए सुखद होकर आश्चर्य चकित कर सकती हैं। आप इस समय में काफी सक्रिय और ऊर्जावान बने रहेंगे। साथ ही इस समय में आपका भावनात्मक और मानसिक स्थिति प्रबल बनी रहेंगी। संतुलित आहार और सावधानियों का पालन करने से स्वास्थ्य की सुखद स्थिति बनी रहेगी अन्यथा यह बिगड़ सकती हैं। नेत्र संक्रमण के खिलाफ आपको सतर्कता बरतनी होगी। यदि इनका समय रहते निराकरण हो जाता है तो संक्रमण शीघ्र शांत हो जाएगा।

### फरवरी 2030 के लिए फलादेश

इस माह आपके निरंतर अच्छे स्वास्थ्य के लिए ग्रहों का आशिर्वाद प्राप्त हो रहा है। गठिया, पाचन तंत्र, वायु रोग की शिकायतें और पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी न होने से ऐसे सभी व्यक्तियों को राहत का अनुभव होगा। जिन्हें इससे पूर्व इस प्रकार के रोग रहे हों। आपका शरीर आहार और पोषण का अच्छे से इस्तेमाल कर आत्मसात करेगा। इससे आपकी उत्पादक शक्तियां औसत से ऊपर रहेगी, यह स्थिति आपको सुखद आश्चर्य देगी। स्वास्थ्य के लिए यह सुखद स्थिति है, इसमें आपको जीवन जीने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति आपको प्रसन्नता देगी।

### मार्च 2030 के लिए फलादेश

इस माह अवधि में ग्रह, सितारों बड़े पैमाने पर आपके स्वास्थ्य को शुभ आशिर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपका शारीरिक तंत्र आपको पौष्टिक भोजन का पूरा लाभ प्रदान कर आपके मन और शरीर को असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान कर रहा है। यह आपकी उत्पादक शक्तियों का सबसे उत्तम प्रयोग होगा। अत्यधिक परिश्रम करने से आपके शारीरिक तंत्र पर

आंशिक रूप से अनुचित दबाव पड़ सकता है। इस दबाव में कमी करने के लिए आप अपने कार्यों की एक अनुसूची तैयार कर उसके अनुसार कार्यों को पूर्ण करें तो आपके लिए हितकारी रहेगा। महीने भर आप सक्रिय और ऊर्जावान बने रहेंगे। तथा मानसिक और भावनात्मक प्रबलता आपको अतिरिक्त बोनस के रूप में प्राप्त होगी।

### अप्रैल 2030 के लिए फलादेश

ग्रह स्थिति इस माह के दौरान आपको अच्छे स्वास्थ्य का आशिर्वाद दे रही हैं। माह अवधि में स्वास्थ्य में कमी को लेकर कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। आपका शारीरिक तंत्र आपके द्वारा लिए गये आहार का पूरा फायदा उठाने में सक्षम होगा। पोषक पदार्थों का लाभ आपके शरीर को मिलेगा। इसके फलस्वरूप आपको असाधारण सुरक्षा और जीवन शक्ति प्राप्त होगी। यहां तक कि अपने पास उपलब्ध उत्पादक संकार्यों का आप सबसे बेहतर तरीके से लाभ उठा पायेंगे। वास्तव में आप आनंदमयी जीवन व्यतीत करेंगे और बड़े पैमाने पर, पूरी तरह से इसे जीने के लिए तत्पर रहेंगे। संतुलित आहार का सेवन कर आप अपने स्वास्थ्य सुख को बनाए रख सकते हैं। ऐसी कोई भी गलती न करें कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो।

### मई 2030 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह, सितारों आपके स्वास्थ्य को शुभता प्रदान कर रहे हैं। इस माह के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहने के बहुत कम कारण बन रहे हैं। सेवन किये गये आहार से आपका शरीर पुष्ट होकर अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। शारीरिक तंत्र की अनुकूलता आपके शारीरिक सुख को बेहतर करेगी। आप काफी सक्रिय और ऊर्जावान बने रहेंगे। पोषक तत्वों का शरीर में लगना आपकी उत्पादक शक्तियों को बढ़ाएगा, जिसे देख आप को सुखद आश्चर्य होगा। जीवन के सभी विषयों का आनंद लेने में आप समर्थ रहेंगे। सावधानियां न बरतने पर हिंसक दुर्घटना की संभावना बन सकती है। इस माह अवधि में आपको चोट आदि से बचना होगा। दुर्घटनाओं से बचाव करें और अपना ख्याल रखें।

### जून 2030 के लिए फलादेश

माह अवधि में सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट बनी हुई है। इसलिए यह माह आपके लिए अतिउत्तम बना हुआ है। फिर भी इस माह में आपको स्वास्थ्य को लेकर आंशिक चिंता हो सकती है। पुराने गठिया विकार, पाचन तंत्र से संबंधित शिकायतों और पुराने रोगों में गड़बड़ी न होने से आपको राहत का अनुभव होगा। शारीरिक तंत्र की अनुकूलता होने से आपको सेवन किये गये आहार का पूरा लाभ प्राप्त होगा। संतुलित भोजन करने से शरीर पुष्ट और स्वस्थ होगा। आप इस माह में काफी सक्रिय और ऊर्जावान दिखेंगे। परन्तु फिर भी मन आंशिकित रहेगा। इस माह में अपनी स्वस्थता बनाए रखने के लिए आपको बहुत कम प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। अतः यह माह एक सुखद माह रहेगा।

### जुलाई 2030 के लिए फलादेश



इस माह के दौरान सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य विषयों के लिए बहुत अनुकूल सिद्ध हो रही हैं। इसलिए इस माह में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता की कोई बात नहीं होगी। माह अवधि में आपके द्वारा लिए गए आहार का पूरा लाभ आपके शरीर को प्राप्त होगा। उत्तम भोजन का असर आपकी स्वास्थ्य चमक पर पड़ेगा। माह अवधि में आपकी उत्पादक शक्तियां चरम पर होंगी। इस माह आप काफी सक्रिय रहेंगे। इस माह में आपको अत्यधिक मेहनत करने से बचना होगा। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इससे बचने के लिए आप कार्या की एक अनुसूची तैयार करें और उसके अनुसार कार्य निर्धारित करें। कुल मिलाकर इस माह आप जीवन के सुखों का भरपूर आनंद लेंगे।

### अगस्त 2030 के लिए फलादेश

सितारों की शुभता प्राप्त होने से यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए एक उत्कृष्ट माह सिद्ध होगा। माह अवधि में ज्यादा प्रयास किए बिना आप शुभता का आनंद ले सकते हैं। ग्रहों की शुभता आपको अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे रही है। पाचन तंत्र की अनुकूलता होने से स्वास्थ्य लाभ दिखाई देगा। खाये गये आहार का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी कार्य शक्ति पहले से बेहतर होगी। स्वस्थता की भावना प्रबल बनी हुई है। अतः आप स्वयं की स्वस्थता के प्रति आप सतर्क रहेंगे। रोगों में कमी और स्वस्थता आपको काफी सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखेगी। मानसिक शांति के लिए आपको ध्यान का सहारा लेना पड़ सकता है। आंशिक रूप से आपके शरीर में फोड़े होने की संभावना बन रही है। आपको फोड़े के बारे में सावधान रहना चाहिए। ऐसा होने पर शीघ्र दवा लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त इस माह में चिंता की कोई अन्य बात नहीं है।

### सितम्बर 2030 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य के पक्ष से यह माह आपके लिए एक अच्छा माह रहेगा। इस माह में आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक रहेगी। जिसके फलस्वरूप अपने स्वास्थ्य सुख को बढ़ाने के लिए आपको खाने में संतुलित आहार का प्रयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त आपको शीघ्र होने वाले रोगों के प्रति सावधान रहना होगा। माह अवधि में अचानक दुःख की घटना के बारे में सतर्कता रखनी होगी। ऐसे किसी भी रोग लक्षण के संकेत प्रकट होने पर आप इनका तुरंत ईलाज करते हुए सावधान रहें और रोगों को गंभीर समस्याओं में बदलने से रोकें। माह अवधि में आपकी उत्पादक शक्तियों में वृद्धि होगी। अपनी ऊर्जा शक्ति से आप स्वयं आश्चर्य चकित होंगे। यह एक शुभ माह है जिसमें आपको अपना कम ध्यान रखना होगा।

### अक्टूबर 2030 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पाचन तंत्र, वायु रोग और पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी न होने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। इस माह अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य की सामान्य देखभाल रखनी होगी। रोगों के शांत रखने से आपको राहत का अनुभव होगा। अपनी स्वास्थ्य अनुकूलता को बनाए रखने के लिए आपको पोषक तत्वों का

सेवन करना होगा। माह अवधि में आपकी उत्पादक जीवन शक्ति बढ़ रही हैं। माह अवधि में आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। गले में सामान्य खराश का ईलाज आपको कराना पड़ सकता है। अन्य रोगों के शांत रहने के योग बन रहे हैं।

### नवम्बर 2030 के लिए फलादेश

ग्रहों की स्थिति इस माह आपकी स्वास्थ्य शुभता निश्चित कर रही है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर इस माह अधिक चिंता नहीं करनी होगी। आपका पाचन तंत्र भी अनुकूल बना हुआ है। इससे आपका स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। फिर भी इस माह अवधि में आप अपने पोषण को लेकर सतर्क रहें। इसका अभिप्राय यह है कि आपका तन और मन दोनों इस माह स्वस्थ बने रहेंगे। आप काफी हद तक सक्रिय और ऊर्जावान बने रहेंगे। अपनी उत्पादक शक्तियों के बढ़ने से आपको स्वयं सुखद आश्चर्य होगा। इसके अतिरिक्त इस माह सीने या फेफड़ों के संक्रमण का आपको तुरंत ईलाज करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अन्य किसी प्रकार का खतरा न होने से चिंता करने का कोई कारण नहीं होगा। इस विषय में विफलता होने पर आपको कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। देखभाल में किसी प्रकार की उपेक्षा आपको नहीं करनी है।

### दिसम्बर 2030 के लिए फलादेश

इस माह सितारें आपको अपना शुभ आशिर्वाद प्रदान कर रहे हैं इसलिए यह माह आपके लिए एक उत्कृष्ट माह रहेगा। इस माह आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि इस माह आपको अपने आहार का पूरा लाभ प्राप्त होगा। पाचन तंत्र भी आपके लिए शुभ बना हुआ है। स्वास्थ्य अनुकूलता होने से आप माह भर सक्रिय और ऊर्जावान बने रहेंगे। आपको अपनी उत्पादक शक्तियों पर गर्व होगा। यह माह आपके लिए शारीरिक सुख का आनंद लेने के लिए बना हुआ है। भावनात्मक और मानसिक रूप से भी माह की शुभता बनी हुई है। इस माह में ग्रहों की स्थिति आपके लिए प्रसन्नता लिए हुए रहेगी।

## दशा विश्लेषण

महादशा :- गुरु  
( 26/01/2016 - 26/01/2032 )

आपकी कुण्डली में गुरु की महादशा 26/01/2016 को आरम्भ और 26/01/2032 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 16 वर्ष है।

आपकी जन्म कुण्डली में गुरु दशम भाव में स्थित है तथा दशम भाव सम्मान, नाम और यश आचरण पद और प्रतिष्ठा, लक्ष्य और अधिकार, कर्तव्य, उन्नति, धार्मिक उत्सव, उच्च पद, धर्म स्थलों की यात्रा, राज सम्मान, और वस्तुओं का द्योतक है।

गुरु स्वभावतः

एक शुभ ग्रह है तथा द्वितीय, चतुर्थ तथा दशम भावों को देख रहा है और इन भावों पर शुभ प्रभाव डाल रहा है। सोलह साल की यह अवधि आपके लिए आनन्द और समृद्धि की होगी।

स्वास्थ्य :

महादशा स्वामी गुरु दशम भाव में स्थित है तथा द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव के अतिरिक्त षष्ठ भाव (शत्रु तथा रोग भाव) को देख रहा है जिसके फलस्वरूप आपके साथ तो कोई रोग या दुर्घटना नहीं होगी।

अर्थ-संपत्ति :

गुरु दशम भाव में स्थित है और प्रतिष्ठा और सम्मान के भाव को बली कर रहा है। दशम भाव से, जो एक केंद्र है, इसकी दृष्टि द्वितीय अर्थात् धनभाव पर (चतुर्थ तथा षष्ठ भाव के अतिरिक्त) है जिसके फलस्वरूप आपको चल तथा अचल संपत्ति अर्जित करने का पूर्ण अवसर इस दशा काल में मिलेगा। आप भोग-विलास की वस्तुएं खरीदेंगे।

व्यवसाय :

गुरु दशम भाव में स्थित है और उसको बली कर रहा है। आप, जो कुछ शुरू करेंगे, उसमें सफल होंगे।

आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। नौकरी में पदोन्नति होगी और आपको आदर और सम्मान मिलेगा।

पारिवारिक जीवन :

एक केन्द्र दशम भाव से गुरु की दृष्टि दूसरे केन्द्र चतुर्थ भाव अर्थात् सुख-स्थान पर है जिसके फलस्वरूप आपका पारिवारिक जीवन सुखी तथा उत्साहपूर्ण होगा। आपके जीवन साथी भी आपका पूर्ण सहयोग करेंगे।

शिक्षा/प्रशिक्षण :

आपकी शिक्षा उत्तम होगी।



**अंतर्दशा :- गुरु - शुक्र  
( 09/12/2023 - 09/08/2026 )**

आपके लिए बृहस्पति महादशा 26/01/2016 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में पांचवी अंतर्दशा शुक्र की होगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष 8 मास रहेगी। आपके लिए यह 09/12/2023 को प्रारंभ होकर 09/08/2026 के समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, सुख और कला का कारक है।

इस अवधि में आपका विवाहित जीवन सुखी रहेगा; समृद्ध बनेंगे। अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, अचानक अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। प्रसन्नचित्त रहेंगे। सब सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे। आपके जीवनसाथी तंत्र-मंत्र में रुचि ले सकते हैं। आप दान-धर्म और समाजसेवा में रुचि ले सकते हैं। सुंदर वस्तुएं क्रय कर सकते हैं। बहुमुखी प्रगति का योग है।

आपके जीवनसाथी को विभिन्न माध्यमों से धनार्जन होगा। आपके पिता के खर्च बढ़ सकते हैं मगर धन संचित भी होगा। माता खुश रहेंगी, धनी बनेंगी, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। आपके भाई-बहनों के लिए शत्रुओं पर विजय, उत्तम स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, सुख-साधन, अच्छी आय और उत्तम मित्रों का संकेत है।

आपकी संतान प्रसन्न और संतुष्ट रहेगी, शिक्षा उत्तम होगी, धनी बनेंगे, परिवार से उत्तम संबंध होंगे। अगर वे कार्यरत हैं तो अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो यात्रा होगी, सफल रहेंगे, आय में वृद्धि हो सकती है। परामर्शदाताओं की आय में वृद्धि होगी। व्यापारियों को विभिन्न माध्यमों से धनागम होगा; आय बढ़ेगी।

आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। पाचन और उत्सर्जन तंत्र की व्याधियों से बचाव करें। शुभत्व में वृद्धि के लिए शुक्र मंत्र का जाप करें।

**अंतर्दशा :- गुरु - सूर्य  
( 09/08/2026 - 28/05/2027 )**

आपके लिए बृहस्पति की महादशा 26/01/2016 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा सूर्य की होगी जिसकी अवधि 9 मास 18 दिन रहेगी। आपके लिए यह 09/08/2026 को प्रारंभ होकर 28/05/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी सूर्य आत्मा, पिता, कार्यक्षमता और स्वास्थ्य का कारक है।

इस अवधि में आपको अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है। विरासत, बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस आदि से लाभ हो सकता है। सट्टेबाजी में लाभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। जीवनसाथी या साझेदार के माध्यम से लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखी होगा, शिक्षा उत्तम रहेगी। वाक्शक्ति उत्तम होगी। धन पर्याप्त रहेगा, सरकार से लाभ हो सकता है।

आपके जीवनसाथी धनी होंगे; उन्हें पिता से लाभ होगा। आपके पिता की यात्राएं

हो सकती हैं; खर्चे बढ़ेंगे। माता को उच्चपद मिल सकता है, धनी बनेंगी, सुख-साधन उपलब्ध होंगे। आपके भाई-बहनों के लिए धन, उच्चपद, कार्यक्षेत्र में सफलता का संकेत है।

आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी; परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, सरकार से लाभ होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो स्पर्धियों पर विजय होगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी, संचार माध्यम और विज्ञापन जगत से लाभ होगा। परामर्शदाता धन कमाएंगे। व्यापारियों को कई माध्यमों से धनागम होगा।

शुभत्व में वृद्धि के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का 40 दिन तक पाठ करें।

**अंतर्दशा :- गुरु - चन्द्र  
( 28/05/2027 - 26/09/2028 )**

आपके लिए बृहस्पति की महादशा 26/01/2016 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा चंद्रमा की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 4 मास है। आपके लिए यह 28/05/2027 को आरंभ होकर 26/09/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र सुंदरता, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं का कारक है।

इस अवधि में आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। परिवार में हंसी-खुशी का वातावरण रहेगा। आप कुनबे के प्रमुख बने रहेंगे। धन का संचय होगा। मृदुवाणी से लोग प्रभावित होंगे। राजनीति में सफल हो सकते हैं। शिक्षा उत्तम होगी। अध्यात्म में दिलचस्पी ले सकते हैं। विरासत से लाभ हो सकता है। अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है। ज्ञान-विज्ञान में रुचि होगी। जीवनसाथी से धन का लाभ हो सकता है।

आपके पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माता के बहुत से मित्र होंगे। आपके भाई-बहनों के लिए यात्रा, स्पर्धियों के कारण समस्याएं, जीवन में खुशी और उत्तम शिक्षा का संकेत है।

आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो सफल रहेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो भाग्यशाली रहेंगे। परामर्शदाताओं को अचानक लाभ और निवेश से धनागम होगा। व्यापारियों के कार्य में कुछ परिवर्तन हो सकता है।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। चेहरे और मुख की मामूली तकलीफ हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए सफेद वस्तुओं का दान दें।

**अंतर्दशा :- गुरु - मंगल  
( 26/09/2028 - 02/09/2029 )**

आपके लिए बृहस्पति की महादशा 26/01/2016 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में आठवीं अंतर्दशा मंगल की होगी जिसकी अवधि 11 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह

26/09/2028 को प्रारंभ होकर वद 02/09/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल साहस, शौर्य और आत्मविश्वास का कारक है।

इस अवधि में आप साहसी बनेंगे और जोखिम के कार्यों में माहिर होंगे। प्रसिद्धि बढ़ेगी और स्पर्धियों पर विजय मिलेगी। आकांक्षाएं और ऊर्जा प्रबल होंगी; लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेंगे। तकनीकी शिक्षा में सफल होंगे, अचल संपत्ति प्राप्त करेंगे, वाहन सुख रहेगा। कार्यशक्ति में वृद्धि होगी, आत्म-विश्वास उत्तम होगा; सफलता, सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। स्पर्धा में जीत के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। निवेश से लाभ हो सकता है। अध्यात्म में रुचि होगी।

आपके जीवनसाथी अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपके पिता को धनलाभ होगा। माता को साझेदारी से लाभ होगा। आपके भाई-बहनों के लिए अप्रत्याशित लाभ, यात्रा, अप्रत्याशित खर्च, कार्यक्षेत्र में बाधाओं का संकेत है।

आपकी संतान को शत्रुओं पर विजय मिलेगी, परीक्षा में सफल होंगे, स्वास्थ्य उत्तम होगा। अगर वे कार्यरत हैं तो कार्यालय उत्तम होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो भाग्यशाली रहेंगे। परामर्शदाताओं की आय उत्तम होगी; प्रसिद्धि मिलेगी। व्यापारियों को पहले किये निवेश से लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए हनुमानजी की उपासना करें।

**अंतर्दशा :- गुरु - राहु  
( 02/09/2029 - 26/01/2032 )**

आपके लिए बृहस्पति की महादशा 26/01/2016 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में नवीं अंतर्दशा राहु की होगी जिसकी अवधि 2 वर्ष 4 मास 24 दिन है। यह 02/09/2029 को प्रारंभ होकर 26/01/2032 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक सुख, अचानक परिवर्तन और विदेशियों का कारक है।

इस अवधि में आपको साझेदारी या अनुबंधों से लाभ होगा। विरोधियों पर विजय मिलेगी। यात्रा हो सकती है। विवाह संभव है। समाज में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी; मन की शांति और प्रसिद्धि का योग है। शत्रुओं से रक्षा होगी। नये उद्यम की योजना बन सकती है; धनार्जन उत्तम होगा।

आपके जीवनसाथी की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। आपके पिता के कार्य पूर्ण होंगे; प्रसिद्ध बनेंगे। माता अचल संपत्ति प्राप्त कर सकती हैं, वाहन और घरेलू सुख रहेंगे। आपके भाई-बहनों के लिए निवेश से लाभ का संकेत है।

आपकी संतान उत्साह से पूर्ण और दृढ़निश्चयी होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी बनेंगे; सुख-साधन उपलब्ध होंगे, इच्छाएं पूर्ण होंगी।

अगर आप सेवारत हैं तो पर्याप्त धन कमाएंगे, सरकार और उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परामर्शदाता व्यस्त रहेंगे। व्यापारी कार्य में प्रगति के लिए बहुत उत्साहित

रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए शनिवार के दिन शिवजी की भैरव रूप में उपासना करें।

